

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 616]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1702.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् दतिया, जिला दतिया के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् दतिया, जिला दतिया.	अध्यक्ष	-	-	सुभाष चन्द्र रतन लाल सर्राफ	बहुजन समाज पार्टी
2		पार्षद	1	एक	भूरी भंवर सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुखदेवी (जीतेन्द्र अहिरवार की चाची)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती कामना रविन्द्र बाल्मीक	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	वर्षा चन्दू साहू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रहीसा सल्लू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	कमला देवी (दीपक सोनी)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अहीर हर्ष नाहर सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	बलवंत सिंह उर्फ पप्पू यादव	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	गीता संदीप शर्मा	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगरपालिका परिषद् दतिया, पार्षद जिला दतिया.		10	दस	अतुल यादव	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुरेश कुमार उर्फ मुलू उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सायना मुन्ना बाबू	बहुजन समाज पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मखन बाई अमर सिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	शशी श्री राम सेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	तारिक किलेदार	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	सरू के मुन्ना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	योगेश सक्सैना	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	अनूप तिवारी (कानू)	निर्दलीय
20		पार्षद	19	उन्नीस	रामकुमार इटोरिया	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	पूनम विक्की ठाकुर	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	शफीउद्दीन राजा कुरैशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	हेमलता प्रताप कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	पंचम सिंह गौतम	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	स्वदेश ब्रजेश यादव	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	प्रशांत डेंगुला	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	साहब सिंह उर्फ भूरे यादव	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	माताप्रसाद अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	अरूण बृजेश डेंगुला	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्नतीस	रक्षा संतराम सरौनिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31		पार्षद	30	तीस	हरवंश कुमार दिग्गी राजा	निर्दलीय
32		पार्षद	31	इकतीस	राकेश बट्टी प्रसाद साहू	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	हर्ष उर्फ रामू शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	शैवन्ती भगत निक्की निक्का	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौतीस	धनीराम कुशवाह उर्फ राम	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती नेहा पुष्पेन्द्र गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	पिंकी-मुकेश	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1703.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् सेंवढा, जिला दतिया के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केनल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(7)	
1	नगर परिषद् सेंवढा, जिला दतिया.	अध्यक्ष	-	-	रीना धीरज महाते	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद् सेंवढा, जिला दतिया.	पार्षद	1	एक	रचना कल्लू दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मुन्नी लाल बघेल	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	मनमोहन दीक्षित (टीली)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सरोज विनोद गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रिंकी नरेश साहू एडवोकेट	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	सुमन बनवारी यादव	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रामसिया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	अमित उर्फ बातू शिवहरे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सरजू धनीराम शाक्य	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	प्रेमनारायण प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रंजीत	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	संतोष कुमार परिहार	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती अशोक सिरोमन गोरेले	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	गुलबरानी लल्लू यादव	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बलवीर सिंह	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1704.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् भांडेर, जिला दतिया के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् भांडेर, जिला दतिया.	अध्यक्ष	-	-	बृजकिशोर (बल्ले रावत)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	ऊषा-रामकुमार साहू	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती सुमन दुबे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	“अर्जुन खटीक”	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती त्रिवेणी मोहनलाल अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	राकेश साहू	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रामजीवन राय	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	खुशीराम कोरी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुमन संजीव साहू	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगर परिषद् भांडेर, जिला दतिया.	पार्षद	9	नौ	राजेश कुमार उर्फ ववलू पाठक	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	सोना वाई "मुकुट यादव"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सावित्री अनिरुद्ध अठसेला	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	फलाह उद्दीन सिद्दीकी उर्फ हीरू सिद्दीकी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कलन्दर खाँ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	प्रतिपाल सिंह सेंगर सन्टे पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मन्जू राकेश सिंह सेंगर	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1705.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् इन्दरगढ़, जिला दतिया के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् इन्दरगढ़ जिला दतिया.	अध्यक्ष	-	-	कोकसिंह पटेल	बहुजन समाज पार्टी
2		पार्षद	1	एक	छोटे खाँ पठान	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती गीता संतोष	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती गुडडी अनार सिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती सोनू अरविन्द जाट	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती त्रिवेणी w/o श्री हरगोविन्द जाटव	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रीता गजेन्द्र सिंह	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती शांति	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	बल्लू कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	वनमाली साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	रोहित दाँतरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	शिवभान टिकू राठौर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सुशील सिहारे	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पुष्पेन्द्र सिंह जाटव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अंजू राजेन्द्र यादव	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मनोज दयाराम वंशकार	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1706.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् शाहपुर, जिला बुरहानपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् शाहपुर, जिला बुरहानपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती शोभाबाई रामभाऊ लांडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	संतोष रमेश ससाणे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	रेखाबाई सुभाष अवसरमल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	मनोहर विष्णु बोदडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	निर्मलाबाई संतोष महाजन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	शेख मेहमुद शेख शौकत	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	विनोद शंकरराव चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुनिल बलीराम महाजन (बंड)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	ज्योत्सना शैलेन्द्र इंगले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सौ. रोहणी राजेन्द्र सोहले	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अनुराधा डॉ. प्रविण	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	आशाबाई भागवत बुनगाल (महाजन)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	कैलाश त्र्यंबक महाजन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सैय्यद साबीर सैय्यद बाबु	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती रईसा बी शरीफ शाह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कृष्णा राजाराम भील	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1707.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् पन्ना, जिला पन्ना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगरपालिका परिषद् पन्ना, जिला पन्ना.	अध्यक्ष	-	-	मोहन लाल कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	स्वामी प्रसाद मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	जयशंकर व्यास (बब्लू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	नगरपालिका परिषद् पन्ना, जिला पन्ना.	पार्षद	3	तीन	श्रीमती विजय श्री वाजपेई	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती करूणा अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती नीलम चौवे पति मुरली प्रसाद चौवे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अभिलाष साहू	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	राम मिलन गोंड	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नितिन कुमार बाल्मीक	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती राजकुमारी लोधी	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	कैलाश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	फातिमा हक (सी. पी.)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	स्नेहलता पाणसर पति रजेश पाणसर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	वंदना गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती कविता रैकवार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	शायरा बानो पति इस्माइल खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	फिरोज खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	मुमताज बेगम	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठठारह	जयकुमारी उर्फ जया यादव पति बृजेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	अशोक कुमार पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	वीरेन्द्र कुमार गुप्ता (छोटू)	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	राजेश विश्वकर्मा	निर्दलीय
23		पार्षद	22	बाईस	चन्द्र प्रभा, मंटू तिवारी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1708.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पवई, जिला पन्ना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् पवई, जिला पन्ना.	अध्यक्ष	-	-	किरन बागरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	प्रमोद कुमार पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सविता पटेल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	नगर परिषद् पवई, जिला पन्ना.	पार्षद	3	तीन	ज्योति नगायच	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रेशम बाई वसोर	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	गंगोत्री चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	नंदी लाल आदिवासी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	जीतेन्द्र	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	किरण	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	निजाम बक्स	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	नीलम रैकवार	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	दीपक सोनी	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	मीना सोनी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रामकली चौरसिया	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	धम्मी बाई अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विपिन लटौरिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1709.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् ककरहटी, जिला पन्ना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् ककरहटी, जिला पन्ना.	अध्यक्ष	-	-	श्याम बिहारी कोरी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	प्रेमबाई यादव	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	राजेश कुमार कोरी	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	नारायण सिंह यादव	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	माया पति राम खिलावन	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	सुन्दर लाल बाल्मीक	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	गौता देवी पति सेठ कोरी	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	गजराज सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	आशारानी पति पूरन सिंह	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	जावेद खान	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	नीता पाण्डेय पति रामकृष्ण पाण्डेय	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	पन्नालाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति शशि दुबेदी पति हरी राम	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	हरी प्रसाद पिता लटोरा गोड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति राज कुमारी	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती कमलेश कुमारी चौधरी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1710.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् अमानगंज, जिला पन्ना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् अमानगंज, जिला पन्ना.	अध्यक्ष	-	-	हक्कुन देहायत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	अशवनी कुमार उर्फ पिल्लु सर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	अयूव खान	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	मदारी आदिवासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सितारा बेगम	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	मुकेश कुमार चौबे (राजु चौबे)	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	उर्मिला चमार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	“राधारानी उमेश कुमार”	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रभू विश्वकर्मा	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	सरिता मौर्य	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	ज्ञानचंद कोरी	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	शिवकुमारी अबस्थी	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती गीता चौबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	संतोष कुमार ताम्रकार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	भागवती वसोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	भागवती कुशवाहा	बहुजन समाज पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1711.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् अजयगढ, जिला पन्ना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् अजयगढ, जिला पन्ना.	अध्यक्ष	-	-	संदीप कुमार विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	शोभारानी खटीक	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगर परिषद् अजयगढ, जिला पन्ना.	पार्षद	2	दो	आरती-चमन गुप्ता	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	हसीना	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	गुलाब चन्द्र सोनी	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	रामेश्वरी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	होशियार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	फूलारानी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	राजू	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	राम प्रताप गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	हीरालाल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	कालीचरण कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	रामदेवी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	“गणेश प्रसाद”	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सीमा शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कुशमा	समाजवादी पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1712.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् देवेन्द्रनगर जिला पन्ना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना.	अध्यक्ष	-	-	“शम्भू सोनी”	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	वन्दना वर्मा	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती गीता बाई	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रहीसा बेगम	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती विद्या	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती राधा सिंह	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	सगुनाबाई	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती मिथलेश यादव	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुलोचना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती रानी सुड्डु गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	गिरजा प्रसाद	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती मनीषा जैन कमलेश जैन	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	जगदीश सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अनिल रिंह बुंदेला	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	देवेन्द्र कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राजू भाई पटेल	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.